

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4—अगस्त 10, 2018 (श्रावण 13, 1940)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4—AUGUST 10, 2018 (SHRAVANA 13, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

सं. ए.22012/1/2017-पीएमई (पार्ट III).—श्री अनुराग जैन, आई.ए.एस. (एमपी: 1989) ने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर 28 जून, 2018 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सुरजीत दत्ता

अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 7 जून, 2018

सं. एफ-15/10/2015/जीएन-8434/एएन-I.—अध्यक्ष महोदया, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के निबंधनों के अनुसार, श्री अभिजीत कुमार, अपर सचिव को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लोक सभा सचिवालय में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित करती हैं।

2. अधिसूचना सं. एफ-15/10/2015/जीएन-8142/एएन-I दिनांक 04.11.2016 अधिक्रमित हो गई है।

विनोद कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

सं. एफ-15/09/जीएन-8435/एएन-I/2017.—लोक सभा सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद हेतु सीधी भर्ती परीक्षा में 21 से 25 और 28 जून, 2017 को निर्धारित गति पर आशुलिपि परीक्षा और उसके पश्चात 16.09.2017 को लिखित परीक्षा तथा 17.09.2017 को व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर चयन के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष महोदया श्री सागर मुखर्जी को 01.05.2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद पर पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी - 3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं।

2. वह 01 मई, 2018 से 30 अप्रैल, 2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. श्री सागर मुखर्जी की नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि इस सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद पर उनकी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर उन्हें लिखित परीक्षा और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से शार्टहैंड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी और उक्त ग्रेड में उनका स्थायीकरण आस्थगित हो जायेगा।

4. संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता आर एंड सी एस आदेश सं. पी डी ए - 1076/2003 दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के अनुसार विनियमित होगी।

वी.गणपति

उप सचिव

सं. एफ-15/09/जीएन-8436/एएन-I/2017.—लोक सभा सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद हेतु सीधी भर्ती परीक्षा में 21 से 25 और 28 जून, 2017 को निर्धारित गति पर आशुलिपि परीक्षा और उसके पश्चात 16.09.2017 को लिखित परीक्षा तथा 17.09.2017 को व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर चयन के परिणामस्वरूप अध्यक्ष महोदया श्री मनीष कुमार को 22.05.2018

के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद पर पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी - 3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं।

2. वह 22 मई, 2018 से 21 मई, 2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

3. संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता आर एंड सी एस आदेश सं. पी डी ए - 1076/2003 दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के अनुसार विनियमित होगी।

वी.गणपति

उप सचिव

नई दिल्ली, 21 जून, 2018

सं. एफ-23/01/2018/जीएन-8438/एएन-I.—अध्यक्ष महोदया, श्री राजीव शर्मा, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) को दिनांक 20.06.2018 से अगले आदेश तक 15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में अपर निदेशक (अनुवाद) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं।

वी.गणपति

उप सचिव

सं. एफ-23/02/जीएन-8439/एएन-I/2018.—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती बी.आर. उषा, जिन्हें अधिसूचना सं. जीएन-8404 दिनांक 6.4.2018 के द्वारा तदर्थ आधार पर अपर निदेशक (रिपोर्टिंग) के पद पर नियुक्त किया गया था, को 20.06.2018 से अगले आदेश तक 15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में अपर निदेशक (रिपोर्टिंग) के पद नियमित आधार पर नियुक्त करती हैं।

वी.गणपति

उप सचिव

सं. पीएफ-23/02/जीएन-8440/एएन-I/2018.—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती रेनू काला, संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) को 20.06.2018 से अगले आदेश तक 15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में अपर निदेशक (रिपोर्टिंग) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं।

वी.गणपति

उप सचिव

सं. पीएफ-23/02/जीएन-8441/एएन-I/2018.— अध्यक्ष महोदया, श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी को 20.06.2018 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करती हैं।

वी.गणपति

उप सचिव

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

सं. एफ.23/08/2018/जीएन-8442/एएन-I.— अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [9300-34800 रुपये (पीबी-2) + ग्रेड पे 4800 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 8 में कार्यरत निम्नलिखित सहायक सुरक्षा अधिकारियों को 21 जून, 2018 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं:-

1. श्री सुरेश कुमार रंगा
2. श्री श्याम देव झा
3. श्री श्याम लाल

2. सर्व/श्री सुरेश कुमार रंगा और श्याम देव झा सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में 21.6.2018 से 20.6.2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। श्री श्याम लाल सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में 21.6.2018 से 30.6.2019 तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में उनकी नियुक्ति समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनाम संजय कोठारी एवं अन्य मामले में एसएलपी (सी) सं. 4831/2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित अवमानना याचिका (सी) सं.314/2016 के परिणाम के अध्यक्षीन होगी।

संजय सेठी

उप सचिव

नई दिल्ली, 25 जून, 2018

सं.पीएफ.338-आर(2)/जीएन-8443/2018/एएन-1.—दिनांक 04.11.2015 की अधिसूचना सं. एफ.23/14/2015/जीएन-7889/एएन-I, दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना सं. एफ.23/14/2015/जीएन-7902/एएन-I और दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना सं. एफ.23/14/2015/जीएन-7903/एएन-I के अनुक्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख को कार्यकारी/विधायी/समिति/ प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है :-

क्रम सं.	नाम	परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी करने की प्रभावी तिथि
1.	श्रीमती मंजू रावत	29.10.2017
2.	श्री राकेश कुमार खन्ना (31.05.2018 को सेवानिवृत्त)	29.10.2017
3.	श्री एल.सिंगसन	29.10.2017
4.	सुश्री नरेश कुमारी	29.10.2017
5.	श्रीमती लखवीर कौर	29.10.2017
6.	श्रीमती अनुसूइया	29.10.2017
7.	श्री पन्ना लाल	29.10.2017

8	श्री अमित कुमार	29.10.2017
9	श्रीमती कमलेश धीर	29.10.2017
10	श्री एन.अमरथियागन	29.10.2017
11	सुश्री मिली दिनेश	29.10.2017
12	श्रीमती सतवन्त कौर	29.10.2017
13	श्री सुनील मिनोचा	29.10.2017
14	श्री मार्शल टीटो	29.10.2017
15	श्री मोहन अरुमाला	29.10.2017
16	श्री कुलदीप पेगू (वर्तमान में यूआईडीएआई में प्रतिनियुक्ति पर)	29.10.2017
17	श्री सुरेन्द्र चौधरी (वर्तमान में राज्य मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एपीएस के रूप में प्रतिनियुक्ति पर)	29.10.2017
18	श्री एस. लालेनगजाउ नगाइते	29.10.2017
19	श्री आर.के. चौधरी	29.10.2017
20	श्री जितेन्द्र सिंह पटियाल	29.10.2017
21	श्रीमती निशा मेहरा	29.10.2017
22	श्री इंदु शेखर पाण्डेय	29.10.2017
23	श्रीमती कमला गोयल	29.10.2017
24	श्री भुवनेश काला	29.10.2017
25	श्रीमती मधु कनौजिया	29.10.2017
26	श्रीमती विनीता सचदेवा	29.10.2017
27	श्रीमती माया फुलोरिया	29.10.2017
28	श्रीमती शोभा मखीजा	29.10.2017
29	श्री हरि चन्द	29.10.2017
30	श्री शिवेन्द्र कुमार मधुर	21.11.2017
31	श्री राजेश जिनागल	21.11.2017
32	श्री वृज मोहन-एक	21.11.2017
33	श्री भूपेन्द्र सिंह	21.11.2017
34	श्री एन.एम. लोनारे	21.11.2017
35	श्री विजय कुमार-दो	21.11.2017
36	श्रीमती बाला चौधरी	21.11.2017
37	श्रीमती मनजिंदर पब्बी	21.11.2017
38	श्री राजेन्द्र सिंह	21.11.2017
39	श्रीमती सुरेखा रानी तंवर	21.11.2017

वी.गणपति
उप सचिव

सं. पीएफ. 387-आर(2)/जीएन - 8444/2018/एएन-1.— श्री नगमखोलिन ताउथांग की कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि 22 नवम्बर, 2017 से 17 अगस्त, 2018 तक बढ़ाई जाती है।

2. यह दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना सं. एफ.23/14/2015/जीएन-7903/एएन-1 के अनुक्रम में है।

वी.गणपति

उप सचिव

सं. पीएफ. 1461-आर(3)/जीएन - 8445/एएन-1/2018.— अध्यक्ष महोदया, श्री नागेश्वर नाथ, जिन्हें दिनांक 01.01.2018 की अधिसूचना सं. पीएफ. 1461- आर(3)/जीएन - 8362/एएन-1/2017 के द्वारा सहायक संपादक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, को पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीवी-3) +ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में नियमित आधार पर सहायक संपादक के पद पर 22.06.2018 से अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं।

2. वह सहायक संपादक के ग्रेड में 22.06.2018 से 21.06.2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. सहायक संपादक के ग्रेड में उनकी नियुक्ति समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनाम संजय कोठारी एवं अन्य मामले में एसएलपी (सी) सं. 4831/2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित अवमानना याचिका (सी) सं.314/2016 के परिणाम के अध्यक्षीन होगी।

वी.गणपति

उप सचिव

सं. पीएफ. 1462-आर(3)/जीएन - 8446/एएन-1/2018.—अध्यक्ष महोदया, श्री विपिन कुमार पाल, अनुवादक को पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीवी-3) +ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में सहायक संपादक के पद पर 22.06.2018 से अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करती हैं।

2. वह सहायक संपादक के ग्रेड में 22.06.2018 से 21.06.2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. सहायक संपादक के ग्रेड में उनकी नियुक्ति समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनाम संजय कोठारी एवं अन्य मामले में एसएलपी (सी) सं. 4831/2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित अवमानना याचिका (सी) सं.314/2016 के परिणाम के अध्यक्षीन होगी।

वी.गणपति

उप सचिव

सं. पीएफ. 1467- आर(3)/जीएन - 8447/एएन-1/2018.— अध्यक्ष महोदया, श्री सुनील कुमार शर्मा, अनुवादक को पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीवी-3) +ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में सहायक संपादक के पद पर 22.06.2018 से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं।

2. सहायक संपादक के ग्रेड में उनकी नियुक्ति समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनाम संजय कोठारी एवं अन्य मामले में एसएलपी (सी) सं. 4831/2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित अवमानना याचिका (सी) सं.314/2016 के परिणाम के अध्यक्षीन होगी।

वी.गणपति
उप सचिव

सं. एफ 41/01/2018/जी एन-8448/ए एन-1.— अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3) +ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में कार्यरत, निम्नलिखित संपादकों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से समयमान स्थापन योजना - 2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3) +ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में रखती हैं:-

क्रम सं.	नाम	तिथि
1	श्री भूषण कुमार	05.04.2018
2	श्री उदय शरण	22.04.2018

वी.गणपति
उप सचिव

सं. एफ. 41/01/2018/जी एन - 8449/ए एन-1.—अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी)[15600-39100 रुपये (पीबी-3) +ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में कार्यरत निम्नलिखित सहायक संपादकों को 22.05.2018 से समयमान स्थापन योजना - 2011 के अंतर्गत के संपादक के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3) +ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में रखती हैं:-

क्रम सं.	नाम
1.	श्रीमती ज्योत्स्ना सहगल
2.	श्रीमती आभा सिंह
3.	श्री अनिल कुमार कौशिक

वी.गणपति
उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

सं. आई-14011/27/2017-आईपीएस-1(II).-राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2015

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1	एम0 रविन्द्रनाथ बाबू	01.06.1964

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिये परीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

अजय कुमार सिंह
अवर सचिव

सं. आई-14011/27/2017-आईपीएस-1(I).-भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 13.07.2018 को चयन समिति की दिनांक 08.06.2018 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2015 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा में कुल 3 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु आन्ध्र प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का नाम शामिल किया गया है :-

चयन सूची-2015

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1	एम0 रविन्द्रनाथ बाबू	01.06.1964

अजय कुमार सिंह
अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

सं. 13017/30/2018-अ.भा.से.-I.-भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा श्रीमती अनुज मलिक, आई०ए०एस० (एजीएमयूटी:2017) का श्री गौरव सिंह सोगरवाल, आई०ए०एस० (उत्तर प्रदेश:2017) से विवाह होने के आधार पर एजीएमयूटी संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरण करते हैं।

उदय भान सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2018

सं. 14013/05/2016-अ.भा.से.।।।.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल राज्य संवर्ग की सदस्य श्रीमती सुपर्णा दास अहमद को दिनांक 16.10.2016 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

ज्योत्सना गुप्त
अवर सचिव

सं. 14012/01/2014-अ.भा.से.।।।.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2011 बैच के सदस्य सुश्री आर. रागाप्रिया को दिनांक 23.08.2014 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

ज्योत्सना गुप्त
अवर सचिव

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2018

सं. 23012/01/2015-अ.भा.से. III.—श्री राकेश कुमार, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी:2016) को अपना नाम श्री राकेश कुमार से बदलकर राकेश मिनहास करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए उन्हें राकेश मिनहास के रूप में जाना जाएगा।

ज्योत्सना गुप्त
अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

सं. 21/पीबी- I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री राम पाल सिंह (जन्म तिथि 08.06.1958) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 30 जून 2018 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुनीला कृष्णन
प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई 2018

सं. डी III /460/सी एफ-05/2018.—भारत के राष्ट्रपति मुंबई में मलावी गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री शान्तिलाल कवाड़ की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री शान्तिलाल कवाड़ के कौंसली क्षेत्राधिकार में मुंबई शहर होगा, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

डी.सी.डी. दास
उप प्रोतोकोल प्रमुख (पी)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
नई दिल्ली, 28 जून, 2018

फा.सं. 11012/1/2017-आईईएस.—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के 2015 बैच के निम्नांकित कनिष्ठ समय मान अधिकारियों को अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने और तत्पश्चात इसकी पुष्टि हो जाने के बाद उनके नाम के सामने दी गई तारीख 27.12.2017 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	सुश्री अर्शी खोसला	17.12.1991
2.	सुश्री रुबी रानी	06.01.1990
3.	श्री आयुष पुनिया	04.02.1990
4.	सुश्री मीरा सेठी	04.05.1990
5.	सुश्री नेहा सिंह	10.01.1988
6.	सुश्री लीना कुमार	15.09.1992
7.	सुश्री दिलाशा वासुदेव	19.09.1988
8.	सुश्री प्रिया सराफ	18.02.1992
9.	श्री गुंजन कुमार	09.09.1991
10.	श्री विकास कुमार मलिक	10.04.1986
11.	सुश्री अंजना तंवर	09.09.1992
12.	सुश्री अपराजिता प्रियदर्शिनी बेहरा	22.05.1990
13.	श्री अभिषेक मीना	26.01.1988

अर्चना मायाराम
निदेशक (आईईएस)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2018

फा. सं. ए-32013/01/2017 -एन.टी.एच.— राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में श्रीमति अंशु माला शुक्ला वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) को 15600-39100 रु. के वेतन बैंड 3 + 5400 रु. के ग्रेड वेतन (पूर्व संशोधित) में दिनांक 28.06.2018 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय परीक्षण शाला में नियमित आधार पर वैज्ञानिक – बी (रसायन) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

आनन्द जोशी
अवर सचिव

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

सं. ए-120121/1/2016- सी पी डब्ल्यू.—राष्ट्रपति द्वारा डॉ प्रशांत गार्गव, वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद पर तैनाती की जाती है।

सत्येंद्र कुमार

उप सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2018

सं. ए. 12025/150/2017-सीएचएस-III.—राष्ट्रपति महोदय, डॉ. निधि यादव को दिनांक 09.10.2017 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में संवेदनाहरन की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी.डी. माहेश्वरी

अवर सचिव

सं. ए. 12025/43/2017-सीएचएस-III.—राष्ट्रपति महोदय, डॉ. अनुराग सिंगला को दिनांक 05.07.2017 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में मूत्रविज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी.डी. माहेश्वरी

अवर सचिव

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. ए. 12025/108/2017-सीएचएस-III.—राष्ट्रपति महोदय, डॉ. इतिश्री को दिनांक 29.08.2017 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में संवेदनाहरन की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी.डी. माहेश्वरी

अवर सचिव

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

सं. ए. 12025/29/2017-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रजना प्रियदर्शिनी को दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० प्रजना प्रियदर्शिनी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भुवनेश्वर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/111/2015-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० सतदेवे अमोल भास्करराव को दिनांक 18 फ़रवरी, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० सतदेवे अमोल भास्करराव को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/167/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० दीपमज्योति नंदा को दिनांक 20 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० दीपमज्योति नंदा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/88/2016-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० सौमेन चक्रवर्ती को दिनांक 15 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० सौमेन चक्रवर्ती को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/492/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० ऊषा रानी मालतो को दिनांक 22 अगस्त, 2014 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० ऊषा रानी मालतो को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वह दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/24/2015-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० राशि साहनी को दिनांक 31 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० राशि साहनी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/499/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० शाहिद अमीन को दिनांक 25 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० शाहिद अमीन को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/264/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० जितेंद्र मिश्रा को दिनांक 17 फ़रवरी, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० जितेंद्र मिश्रा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/55/2017-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० निथया नायर को दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० निथया नायर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/71/2016-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० रमिनेनी विजय कुमार को दिनांक 01 जुलाई, 2016 के अपराहन से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० रमिनेनी विजय कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/129/2015-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० सुमन मलिक को दिनांक 18 जनवरी, 2016 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० सुमन मलिक को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/136/2016-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० विघ्नेसाररेड्डी ओण्टेड्डु को दिनांक 04 अक्तूबर, 2016 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० विघ्नेसाररेड्डी ओण्टेड्डु को भारतीय डाक विभाग, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/235/2016-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० संगीता मीना को दिनांक 09 सितम्बर, 2016 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० संगीता मीना को सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/41/2017-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० कृति सेठ को दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० कृति सेठ को विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं० ए० 12025/110/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० प्रियंका कुंदरा को दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० प्रियंका कुंदरा को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

मुंबई, 24 जुलाई, 2018

सं. : एईआरबी/प्रशा/1/77/ 2129.—राष्ट्रपति महोदय परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को अगले आदेश तक इसी परिषद में उनके नाम के सामने उल्लिखित पदोन्नति पर तथा वेतनमान में दिनांक 01/07/2018 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं :

क्रसं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का ग्रेड	वेतन मैट्रिक्स
1.	डॉ. बाबुराजन. पी. के वैज्ञानिक अधिकारी (फए)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए
2.	डॉ विजयन पल्लूर वैज्ञानिक अधिकारी (फए)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए
3	श्री पिंपले देवेंद्र वसंत वैज्ञानिक अधिकारी (फए)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए
4	श्री एलुवतिनाल रप्पाई टिटो वैज्ञानिक अधिकारी (फए)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए
5	श्री दीप्तज्योति भट्टाचार्य वैज्ञानिक अधिकारी (फए)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए
6	डॉ संतोष कुमार दुवे वैज्ञानिक अधिकारी (फए)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए
7	श्री आशिष कुमार पंडा वैज्ञानिक अधिकारी (फए)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए

8	डॉ (श्रीमती) शैलामणि पी वैज्ञानिक अधिकारी (फए)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए
9	श्री परदीप सिंह विरदी वैज्ञानिक अधिकारी (फए)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए

श्रीमती शीला मोहन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मुंबई, 25 जुलाई, 2018

संदर्भ सं. AERB/Adm/II/77/2146.—राष्ट्रपति महोदय परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को अगले आदेश तक इसी परिषद में उनके नाम के सामने उल्लिखित अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति पर दिनांक 01.07.2018 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं

क्र.स.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति की श्रेणी	वेतन सारणी
1.	श्री एल.आर.विश्वोई, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	वेतन सारणी का स्तर 15
2.	श्री एस.बी.चाफले, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	वेतन सारणी का स्तर 15
3.	श्री ए.जे.गायकवाड, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	वेतन सारणी का स्तर 15

श्रीमती शीला मोहन
मुख्य प्रशासन अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई, 26 जुलाई, 2018

सं./भापाबो/भर्ती/R/4(11)/2018/ 4411.—राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड के डॉ. यू कामाची मुदली, उत्कृष्ट वैज्ञानिक (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15) को उसी कार्यालय में 01 जुलाई, 2018 के पूर्वाह्न से 'विशिष्ट वैज्ञानिक' (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 16) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सैम्सन वर्गीस
मुख्य प्रशासन अधिकारी

संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

सं. 17-31/2015-एम-1.— संस्कृति मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी, चयन समिति की सिफारिश पर श्री मनोहर लाल को संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में वेतन मैट्रिक्स, लेवल-7- 44900-142400/- रु. में दिनांक 14.3.2018 के पूर्वाह्न से पुनर्नियोजन आधार पर सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिंह
अवर सचिव

सं. 17-47/2015-एम-1.— संस्कृति मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी, चयन समिति की सिफारिश पर सुश्री साजिदा बेगम, पुस्तकालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी संगठन) को संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में वेतन मैट्रिक्स, लेवल-7, 44900-142400/- रु. में 3 वर्ष की अवधि के लिए (जिसे नियमानुसार विस्तारित किया जा सकता है) अल्पकालिक संविदा के आधार पर दिनांक 16.2.2018 के पूर्वाह्न से सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिंह
अवर सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय
नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2018

फा. सं. ए -32012/4/2016 -एम ए.— राष्ट्रपति, कैप्टन के. पी. जयाकुमार, उप सामुद्रिक सलाहकार को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 (रु. 144200-218200/-) के वेतनमान में प्रधान अधिकारी (सामुद्रिक)-सह-संयुक्त महानिदेशक (तकनीकी) के पद पर नौवहन महानिदेशालय के अंतर्गत समुद्रीय वाणिज्य विभाग, मुंबई के कार्यालय में 27.06.2018 (अपराह्न) और अगले आदेश तक, पदोन्नति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

संजय मितल
अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(स्थापना-I अनुभाग)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

सं. ए-38012/1/2017-ई-1.— सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत सुश्री कीर्ति सक्सेना अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 30.06.2018 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

राजिन्दर कुमार
अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi, the 28th June, 2018

No. A. 22012/1/2017-PME(Pt. III).—Consequent upon completion of tenure on Central deputation, Shri Anurag Jain, IAS (MP: 1989) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 28th June, 2018.

SURAJIT DUTTA

Under Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 7th June, 2018

No. F. 15/10/2015/GN-8434/ AN-I.—In terms of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, the Speaker is pleased to designate Shri Abhijit Kumar, Additional Secretary as the Appellate Authority in the Lok Sabha Secretariat with immediate effect until further orders.

2. Notification No.F.15/10/2015/GN-8142/AN-I dated 04.11.2016 stands superseded.

VINOD KUMAR TRIPATHI

Joint Secretary

New Delhi, the 14th June, 2018

No.F.15/09/GN-8435/AN-I/2017.—Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Reporter Grade-II on the basis of the performance in the Stenography Test at the prescribed speed held on 21st to 25th and 28th June, 2017, followed by the Written Test on 16th September, 2017 and Personal Interview on 17th September, 2017 in Direct Recruitment Examination for the said post in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Sagar Mukherjee to the post of Parliamentary Reporter Grade-II in level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5400 (Pre-revised)] in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.05.2018 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 1st May, 2018 upto 30th April, 2020.
3. The appointment of Shri Sagar Mukherjee is subject to the condition that he will have to qualify the written test and also the shorthand test at the speed of 160 words per minute within a year of appointment to the post of Parliamentary Reporter Grade-II in this Secretariat, failing which he will not be granted annual increment and his confirmation in the grade will be deferred.
4. His *inter-se-seniority* in the grade of Parliamentary Reporter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

V. GANAPATHY

Deputy Secretary

New Delhi, the 14th June, 2018

No.F.15/09/GN-8436/AN-I/2017.—Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Reporter Grade-II on the basis of the performance in the Stenography Test at the prescribed speed held on 21st to 25th and 28th June, 2017, followed by the Written Test on 16th September, 2017 and Personal Interview on 17th September, 2017 in Direct Recruitment Examination for the said post in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Manish Kumar to the post of Parliamentary Reporter Grade-II in level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5400 (Pre-revised)] in an officiating capacity with effect from the forenoon of 22.05.2018 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 22nd May, 2018 upto 21st May, 2020.

3. His *inter-se-seniority* in the grade of Parliamentary Reporter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

V. GANAPATHY
Deputy Secretary

New Delhi, the 21st June, 2018

F.No.23/01/2018/GN-8438/AN-1.—The Speaker is pleased to appoint Shri Rajeev Sharma, Joint Director (Translation) to the grade of Additional Director (Translation) in the Pay Band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000 (pre-revised) on ad-hoc basis with effect from 20th June, 2018, until further orders.

V. GANAPATHY
Deputy Secretary

No.PF.23/02/GN-8439/AN-I/2018.—The Speaker is pleased to appoint Smt. B. R. Usha, who was appointed as Additional Director(Reporting) on *ad-hoc* basis *vide* Notification No.GN-8404 dated 06.04.2018, to the post of Additional Director(Reporting) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000 (Pre-revised), on regular basis with effect from 20th June, 2018, until further orders.

V. GANAPATHY
Deputy Secretary

No.PF.23/02/GN-8440/AN-I/2018.—The Speaker is pleased to appoint Smt. Renu Kala, Joint Director(Reporting) to the post of Additional Director(Reporting) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000 (Pre-revised), on ad-hoc basis with effect from 20th June, 2018, until further orders.

V. GANAPATHY
Deputy Secretary

No.PF.23/02/GN-8441/AN-I/2018.—The Speaker is pleased to appoint Shri Rajendra Kumar Chaudhari to the post of Joint Director(Reporting) in Level 12 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600 (Pre-revised)], on regular basis with effect from 20th June, 2018, until further orders.

V. GANAPATHY
Deputy Secretary

New Delhi, the 22nd June, 2018

No.F.23/08/2018/GN-8442/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint the following Assistant Security Officers in Level 8 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.9300-34800(PB-2) + Grade Pay Rs.4800(pre-revised)] to the grade of Security Officer in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400(pre-revised)] in an officiating capacity, in the order as shown below, with effect from 21st June, 2018, until further orders:

1. Shri Suresh Kumar Ranga
2. Shri Shyam Deo Jha
3. Shri Shyam Lal

2. S/Shri Suresh Kumar Ranga and Shyam Deo Jha will be on probation in the grade of Security Officer for a period of two years with effect from 21.06.2018 upto 20.06.2020. Shri Shyam Lal will be on probation in the grade of Security Officer w.e.f. 21.06.2018 upto 30.06.2019.

3. Their appointment to the grade of Security Officer is subject to the outcome of the Contempt Petition(C) No.314/2016 in SLP(C) No.4831/2012-Samta Andolan Samiti through its President vs. Sanjay Kothari & Ors. pending in the Hon'ble Supreme Court.

SANJAY SETHI

Deputy Secretary

New Delhi, the 25th June, 2018

No.PF.338-R(2)/GN-8443/2018/AN-I.—In continuation of Notifications No.F.23/14/2015/GN-7889/AN-I dated 4th November, 2015, No.F.23/14/2015/GN-7902/AN-I dated 24th November, 2015 and No.F.23/14/2015/GN-7903/AN-I dated 24th November, 2015, the following persons have satisfactorily completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer with effect from the date mentioned against their names:-

Sl. No.	Name	Effective date of satisfactory completion of Probation Period
1.	Smt. Manju Rawat	29.10.2017
2.	Shri Rakesh Kumar Khanna (Retired w.e.f. 31.05.2018)	29.10.2017
3.	Shri L. Singson	29.10.2017
4.	Ms. Naresh Kumari	29.10.2017
5.	Smt. Lakhbir Kaur	29.10.2017
6.	Smt. Anussuyya	29.10.2017
7.	Shri Panna Lal	29.10.2017
8.	Shri Amit Kumar	29.10.2017
9.	Smt.Kamlesh Dhir	29.10.2017
10.	Shri N. Amarathiagan	29.10.2017
11.	Ms. Mili Dinesh	29.10.2017
12.	Smt. Satwant Kaur	29.10.2017
13.	Shri Sunil Minocha	29.10.2017
14.	Shri Marshal Titto	29.10.2017
15.	Shri Mohan Arumala	29.10.2017
16.	Shri Kuldeep Pegu (presently on deputation to UIDAI)	29.10.2017

17.	Shri Surender Chaudhary (presently on deputation as APS to MOS, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution)	29.10.2017
18.	Shri S. Lalengzau Ngaihte	29.10.2017
19.	Shri R.K.Chaudhary	29.10.2017
20.	Shri Jeetendra Singh Patiyal	29.10.2017
21.	Smt. Nisha Mehra	29.10.2017
22.	Shri Indu Shekhar Pandey	29.10.2017
23.	Smt. Kamla Goel	29.10.2017
24.	Shri Bhuvnesh Kala	29.10.2017
25.	Smt. Madhu Kanaujia	29.10.2017
26.	Smt. Vineeta Sachdeva	29.10.2017
27.	Smt. Maya Phuloria	29.10.2017
28.	Smt. Shobha Makhija	29.10.2017
29.	Shri Hari Chand	29.10.2017
30.	Shri Shivendra Kumar Madhur	21.11.2017
31.	Shri Rajesh Jinagal	21.11.2017
32.	Shri Brij Mohan-I	21.11.2017
33.	Shri Bhupendra Singh	21.11.2017
34.	Shri N.M.Lonare	21.11.2017
35.	Shri Vijay Kumar-II	21.11.2017
36.	Smt. Bala Chaudhary	21.11.2017
37.	Smt. Manjinder Pubbi	21.11.2017
38.	Shri Rajender Singh	21.11.2017
39.	Smt. Surekha Rani Tanwar	21.11.2017

V.GANAPATHY

Deputy Secretary.

New Delhi, the 25th June, 2018

No.PF.387-R(2)/GN-8444/2018/AN-I.—The period of probation in respect of Shri Ngamkholien Touthang is extended from 22nd November, 2017 to 17th August, 2018 in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer.

2. This is in continuation of Notification No.F.23/14/2015/GN-7903/AN-I dated 24th November, 2015.

V.GANAPATHY

Deputy Secretary

No.PF.1461-R(3)/GN-8445/AN-I/2018.—The Speaker is pleased to appoint Shri Nageshwar Nath, who was appointed as Assistant Editor on *ad-hoc* basis *vide* Notification No.PF.1461-R(3)/GN-8362/AN-I/2017 dated 01.01.2018, to the post of Assistant Editor in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400 (Pre-revised)] on regular basis, in an officiating capacity, with effect from 22.06.2018, until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of two years with effect from 22.06.2018 to 21.06.2020.

3. His appointment to the post of Assistant Editor is subject to the outcome of the contempt Petition (C) No.314/2016 in SLP(C) No.4831/2012-Samta Andolan Samiti through its President Vs. Sanjay Kothari & Ors. pending in the Hon'ble Supreme Court.

V. GANAPATHY

Deputy Secretary

No.PF.1462-R(3)/GN-8446/AN-I/2018.—The Speaker is pleased to appoint Shri Vipin Kumar Pal, Translator to the post of Assistant Editor in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400 (Pre-revised)] in an officiating capacity with effect from 22.06.2018, until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of two years with effect from 22.06.2018 to 21.06.2020.

3. His appointment to the post of Assistant Editor is subject to the outcome of the contempt Petition (C) No.314/2016 in SLP(C) No.4831/2012-Samta Andolan Samiti through its President Vs. Sanjay Kothari & Ors. pending in the Hon'ble Supreme Court.

V. GANAPATHY

Deputy Secretary

No.PF.1467-R(3)/GN-8447/AN-I/2018.—The Speaker is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Sharma, Translator to the post of Assistant Editor in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400 (Pre-revised)] on *ad hoc* basis with effect from 22.06.2018, until further orders.

2. His appointment to the post of Assistant Editor is subject to the outcome of the contempt Petition (C) No.314/2016 in SLP(C) No.4831/2012-Samta Andolan Samiti through its President Vs. Sanjay Kothari & Ors. pending in the Hon'ble Supreme Court.

V. GANAPATHY

Deputy Secretary

No.F.41/01/2018/GN-8448/AN-I.—The Speaker is pleased to place the following Editors in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 (Pre-revised)] to Level 12 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600 (Pre-revised)] attached to the post of Joint Director (Translation) with effect from the dates mentioned against each under the Time Scale Placement Scheme – 2011:

Sl.No.	Name	Date
1.	Shri Bhushan Kumar	05-04-2018
2.	Shri Uday Sharan	22-04-2018

V.GANAPATHY

Deputy Secretary

No.F.41/01/2018/GN-8449/AN-I.—The Speaker is pleased to place the following Assistant Editors in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400 (Pre-revised)] to Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 (Pre-revised)] attached to the post of Editor with effect from 22.05.2018 under the Time Scale Placement Scheme – 2011:

Sl.No.	Name
1.	Smt. Jyotsna Sehgal
2.	Smt. Abha Singh
3.	Shri Anil Kumar Kaushik

V.GANAPATHY

Deputy Secretary

New Delhi, the 25th July, 2018

No. I-14011/27/2017-IPS.I (II).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Andhra Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Andhra Pradesh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2015

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	M Ravindranath Babu	01.06.1964

2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.

3. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

AJAY KUMAR SINGH)

Under Secretary

New Delhi, the 25th July, 2018

No. I-14011/27/2017-IPS.I (I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 13.07.2018 approved the Select List of the year 2015 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 08.06.2018, containing the name of the following State Police Service Officer of Andhra Pradesh towards filling up of 3 substantive vacancies in the Andhra Pradesh Cadre of Indian Police Service:-

Select List 2015

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	M Ravindranath Babu	01.06.1964

AJAY KUMAR SINGH)

Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 16th July, 2018

No.13017/30/2018-AIS-I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Ministry of Home Affairs and the State Government of Uttar Pradesh, the Central Government hereby transfers Ms. Anuj Malik, IAS (AGMUT:2017) from AGMUT cadre to Uttar Pradesh cadre on the grounds of marriage to Shri Gaurav Singh Sogarwal, IAS (UP:2017).

UDAI BHAN SINGH

Under Secretary

New Delhi Dated, the 19th July, 2018.

No.14013/05/2016 - AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Smt Suparna Das Ahamed, a member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of West Bengal in the Indian Administrative Service, with effect from 16/10/2016.

JYOTSNA GUPTA

Under Secretary

No.14012/01/2014 - AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms. R. Ragapriya, a member of the Indian Administrative Service of 2011 batch in the Indian Administrative Service, with effect from 23/08/2014.

(JYOTNSA GUPTA)

Under Secretary

New Delhi, the 24th July, 2018.

No.23012/01/2015-AIS-III.—Shri Rakesh Kumar, IAS (AGMUT: 2016) has been permitted to change his name from “Rakesh Kumar to Rakesh Minhas.” He will accordingly be recognized as “Rakesh Minhas” for all official purposes.

JYOTSNA GUPTA

Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th July, 2018

No. 21/PB-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Sh. Ram Pal Singh (DOB: 08.06.1958), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 30th June, 2018.

SUNILA KRISHNAN

Administrative Officer (PB-I)

New Delhi, the 13th July, 2018

No. DIII/460/CF-05/2018.—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Shantilal Kavar as the Honorary Consul of the Republic of Malawi in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Shantilal Kavar comprises the City of Mumbai, with the seat in Mumbai.

D.C.D. DASS

Deputy Chief of Protocol (P)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 28th June, 2018

F. No.11012/1/2017-IES.—The President is pleased to appoint the following Junior Time Scale (JTS) officers of the Indian Economic Service of 2015 Batch on regular basis, after successful completion of their probation and subsequent confirmation with effect from 27.12.2017:

Sl. No.	Name of the officer	Date of Birth
1.	Ms. Arshee Khosla	17.12.1991
2.	Ms. Ruby Rani	06.01.1990
3.	Shri Ayush Punia	04.02.1990
4.	Ms. Mira Sethi	04.05.1990
5.	Ms. Neha Singh	10.01.1988
6.	Ms. Leena Kumar	15.09.1992
7.	Ms. Dilasha Vasudeva	19.09.1988

8.	Ms. Priya Sarraf	18.02.1992
9.	Shri Goonjan Kumar	09.09.1991
10.	Shri Bikash Kumar Malick	10.04.1986
11.	Ms. Anjana Tanwar	09.09.1992
12.	Ms. Aparajita Priyadarshini Behera	22.05.1990
13.	Shri Abhishek Meena	26.01.1988

ARCHANA MAYARAM

Director (IES)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 17th July, 2018

F.No.A.32013/01/2017-NTH.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Smt Anshu Mala Shukla, Scientist-B (Chemical) in the National Test House in the pay band 3 of Rs.15600-39100 + Grade pay of Rs. 5400/- with effect from 28.06.2018 (FN).

ANAND JOSHI

Under Secretary

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 10th July, 2018

No. A-120121/1/2016-CPW.—The President is pleased to appoint Dr. Prashant Gargava, Scientist 'E', Central Pollution Control Board to the post of the Member Secretary, Central Pollution Control Board on deputation basis with immediate effect for a period of 3 years.

SATYENDRA KUMAR

Deputy Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(CHS DIVISION)

New Delhi, the 19th July, 2018

No.A.12025/150/2017-CHS.III.—The President is pleased to appoint Dr. Nidhi Yadav to the post of Assistant Professor in the speciality of Anaesthesia in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 09.10.2017 and until further orders.

D.D. MAHESHWARI

Under Secretary

No.A.12025/43/2017-CHS.III.—The President is pleased to appoint Dr. Anurag Singla to the post of Assistant Professor in the speciality of Urology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the afternoon of 05.07.2017 and until further orders.

D.D. MAHESHWARI

Under Secretary

New Delhi, the 26th July, 2018

No.A.12025/108/2017-CHS.III.—The President is pleased to appoint Dr. Itishri to the post of Assistant Professor in the speciality of Anaesthesia in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 29.08.2017 and until further orders.

D.D. MAHESHWARI

Under Secretary

(CHS I SECTION)

New Delhi, the 20th July, 2018

No.A.12025/29/2017-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Prajna Priyadarshini to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st May, 2017 until further orders. Dr. Prajna Priyadarshini is posted as Medical Officer under CGHS, Bhubaneswar. She will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

(CHS I SECTION)

New Delhi, the 20th July, 2018

No.A.12025/111/2015-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Satdev Amol Bhaskarrao to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 18th February, 2016 until further orders. Dr. Satdev Amol Bhaskarrao is posted as Medical Officer under CGHS, Nagpur. He will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/167/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Deepamjyoti Nanda to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] in a temporary capacity with effect from the forenoon of 20th August, 2014 until further orders. Dr. Deepamjyoti Nanda is posted as Medical Officer under CGHS, Kolkata. He will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/88/2016-CHS.I.— On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Soumen Chakraborty to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 15th July, 2016 until further orders. Dr. Soumen Chakraborty is posted as Medical Officer under CGHS Kolkata. He will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/492/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Usha Rani Malto to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] in a temporary capacity with effect from the afternoon of 22nd August, 2014 until further orders. Dr. Usha Rani Malto is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/24/2015-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rashi Sahni to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 31st March, 2016 until further orders. Dr. Rashi Sahni is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/499/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shahid Amin to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] in a temporary capacity with effect from the forenoon of 25th August, 2014 until further orders. Dr. Shahid Amin is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/264/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Jitender Mishra to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17th February, 2016 until further orders. Dr. Jitender Mishra is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/55/2017-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nithya Nair to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st May, 2017 until further orders. Dr. Nithya Nair is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/71/2016-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ramineni Vijay Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 1st July, 2016 until further orders. Dr. Ramineni Vijay Kumar is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/129/2015-CHS.I.— On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Suman Mallick to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 18th January, 2016 until further orders. Dr. Suman Mallick is posted as Medical Officer under CGHS, Kolkata. He will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/136/2016-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vignesareddy Onteddu to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 04th October, 2016 until further orders. Dr. Vignesareddy Onteddu is posted as Medical Officer under Department of Posts. He will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/235/2016-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sangeeta Meena to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 9th September, 2016 until further orders. Dr. Sangeeta Meena is posted as Medical Officer under Safdarjung Hospital, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/41/2017-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Kriti Seth to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st May, 2017 until further orders. Dr. Kriti Seth is posted as Medical Officer under APHO, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.12025/110/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Priyanka Kundra to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st May, 2017 until further orders. Dr. Priyanka Kundra is posted as Medical Officer under LHMC & SSK Hospital. She will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai, the 24th July, 2018

AERB/Adm/I/77/2129.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers of the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) on promotion to the next higher grade shown against each in the same Board with effect from the forenoon of 01/07/2018 until further orders.

Sr	Name of the Officer & Designation	Grade on Promotion	Pay Matrix (₹)
1.	Dr. P.K. Baburajan Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	Level 13 A of Pay Matrix
2.	Dr. Vijayan Paloor Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	Level 13 A of Pay Matrix
3.	Shri Pimpale Devendra Vasant Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	Level 13 A of Pay Matrix
4.	Shri Eluvathingal Rappai Titto Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	Level 13 A of Pay Matrix
5.	Shri Diptojoyoti Bhattacharya	Scientific Officer (G)	Level 13 A of Pay Matrix

	Scientific Officer (F)		
6.	Dr. Santosh Kumar Dubey Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	Level 13 A of Pay Matrix
7.	Shri Ashis Kumar Panda Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	Level 13 A of Pay Matrix
8.	Dr. (Smt) Shylamoni P Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	Level 13 A of Pay Matrix
9.	Shri Pardeep Singh Virdi Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	Level 13 A of Pay Matrix

SMT. SHEELA MOHAN
Chief Administrative Officer

Mumbai, the 25th July, 2018

Ref. No.AERB/Adm/I/77/2146.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers of the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) on promotion to the next higher grade shown against each in the same Board with effect from the forenoon of 01.07.2018 until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer & Designation	Grade of Promotion	Pay Matrix
1.	Shri L.R. Bishnoi, Scientific Officer (H)	Outstanding Scientist	Level 15 of Pay Matrix
2.	Shri S.B. Chafle, Scientific Officer (H)	Outstanding Scientist	Level 15 of Pay Matrix
3.	Shri A.J. Gaikwad, Scientific Officer (H)	Outstanding Scientist	Level 15 of Pay Matrix

SMT. SHEELA MOHAN
Chief Administrative Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai, the 26th July, 2018

Ref : HWB/R/4(11)/Vol-V/2018/4411.—The President is pleased to appoint Dr. U. Kamachi Mudali, Outstanding Scientist(Level 15 of Pay Matrix) of Heavy Water Board in the grade of “Distinguished Scientist”(Level 16 of Pay Matrix) with effect from the forenoon of July 1st, 2018.

SAMSON VARGHESE
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 16th July, 2018

No.17/31/2015-M-I.—On the recommendation of the Selection Committee, the competent authority in the Ministry of Culture hereby appoints Shri Manohar Lal to the post of Security Officer on Re-employment basis in National Gallery of Modern Art, a Sub-ordinate office under the Ministry of Culture in the Pay Matrix level 7, Rs. 44900-142400 w.e.f the forenoon of 14.03.2018.

S.K. SINGH

Under Secretary

No.17/47/2015-M-I.—On the recommendation of the Selection Committee, the competent authority in the Ministry of Culture hereby appoints Ms. Sajida Begum, Librarian in National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL) (an autonomous organization under the Ministry of Human Resource Development) to the post of Assistant Library and Information Officer in National Gallery of Modern Art, a Sub-ordinate office under the Ministry of Culture for a period of 3 years (extendable as per rules) on Short Term Contract basis in the Pay Matrix level 7, Rs. 44900-142400 w.e.f the forenoon of 16.02.2018.

S.K. SINGH

Under Secretary

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 19th July, 2018

F.No. A-32012/4/2016-MA.—The President is pleased to appoint Capt. K.P. Jayakumar, Deputy Nautical Adviser to the post of Principal Officer (Nautical) in level 14 of the Pay Matrix (Rs. 144200-218200/-) in the Mercantile Marine Department, Mumbai under the Directorate General of Shipping, Mumbai with effect from 27.06.2018 (AN) until further orders.

SANJAY MITAL

Under Secretary

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ESTABLISHMENT-I SECTION)

New Delhi, the 2nd July, 2018

No. A 38012/01/2017-E-I.—On attaining the age of superannuation, Ms. Kirti Saxena, Sr. Adviser in the Ministry of Road Transport & Highways has retired from Government Service w.e.f. 30.06.2018(A.N.).

RAJINDER KUMAR

Under Secretary